



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1984/फाल्गुन 30, 1905

No. 117]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1984/PHALGUNA 30, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अभिपूचना

नयी दिल्ली, 12 मार्च, 1984

का०अ० 171 (अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना (प्रतिकर) (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये 4 मार्च, 1984 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. (1) नियम 5 के उपनियम (2) के पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

(2) नियम 6 के उपनियम (2) में, "पचास हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

(3) नियम 6 के उपनियम (3) में, "सभी परिस्थितियों" शब्दों के स्थान पर "विकिरीय साध्य के साथ अन्य परिस्थितियों" शब्द रखे जाएंगे।

(4) नियम 6 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक में "दस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

(5) नियम 7 में "पचास हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

(6) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

(नियम 6 देखें)

मृत्यु और क्षति के लिए संदेय प्रतिकर

भाग 1	प्रतिकर की राशि रुपये
मृत्यु के लिए	1,00,000
भाग 2	
(1) दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थल पर अंगोच्छेदन	1,00,000
(2) एक हाथ और एक पैर की हानि	1,00,000
(3) टांग या जंघा के बीच से दोहरी अंगोच्छेदन या टांग या जंघा के बीच से एक भाग में अंगोच्छेदन और दूसरे पैर की हानि के लिए	1,00,000
(4) उस सीमा तक दृष्टि की हानि के लिए जिससे दावेदार कोई भी ऐसा काम करने से असमर्थ हो जाए जिसके लिए दृष्टि आवश्यक है	1,00,000

- (5) चेहरे के अत्यन्त गंभीर रूप से विकृत हो जाने के लिए 1,00,000
- (6) बिम्बुल हो बधिर हो जाने के लिए 1,00,000

भाग 3

1. कंधे के जोड़ के बीच से अंगोच्छेदन के लिए 90,000
2. कंधे के नीचे से अंगोच्छेदन के लिए जिसमें अंसकूट के सिरे से ठूँठ 8" से कम हो 80,000
3. अंसकूट के सिरे से 8" से लेकर आलिकेनोन के सिरे के नीचे 4½" से कम तक के अंगोच्छेदन के लिए 70,000
4. एक हाथ या एक हाथ के अंगूठे और चार अंगुलियों की हानि के लिए या आलिकेनोन के छोर के नीचे 4½" अंगोच्छेदन के लिए 60,000
5. अंगूठे की हानि के लिए 30,000
6. अंगूठे और करमि अस्थि की हानि के लिए 40,000
7. एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए 50,000
8. एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए 30,000
9. एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए 20,000
10. अंगूठे के टर्मिनल फॉर्नैक्स की हानि के लिए 20,000
11. दोनों पैरों के अंगोच्छेदन के लिए जिससे कि छोर पर दूँठ रह जाए 90,000
12. दोनों पैरों के बीच से अंगोच्छेदन के लिए जो मेटेटारसोफॉलैजियल जोड़ के समीपस्थ हो 80,000
13. मेटेटारसोफॉलैजियल जोड़ के बीच से दोनों पैरों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए 40,000
14. दोनों पैरों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए जो समीपस्थ इंटर-फॉलैजियल जोड़ के नजदीक हो 30,000
15. दोनों पैरों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए जो समीपस्थ इंटर-फॉलैजियल जोड़ से दूर हो 20,000
16. निम्न पर अंगोच्छेदन के लिए 90,000
17. निम्न के नीचे अंगोच्छेदन के लिए जिसमें दूँठ, ग्रेट ट्रैक्टेर के सिरे से मापे जाने पर लम्बाई में 5" से अधिक न हो 80,000
18. निम्न के नीचे अंगोच्छेदन के लिए जिसमें दूँठ, ग्रेट ट्रैक्टेर के सिरे से मापे जाने पर लम्बाई में 5" से अधिक हो किन्तु मध्य जंघा से आगे न हो 70,000
19. मध्य जंघा से घुटने के नीचे 3½" तक अंगोच्छेदन के लिए 60,000
20. घुटने के नीचे अंगोच्छेदन के लिए जिसमें दूँठ 3½" से अधिक किन्तु 5" से अधिक न हो 50,000
21. घुटने के नीचे अंगोच्छेदन के लिए जिसमें दूँठ 5" से अधिक हो 40,000
22. एक पैर के अंगोच्छेदन के लिए जिससे छोर बन जाए 30,000
23. एक पैर के बीच से अंगोच्छेदन के लिए जो मेटेटारसोफॉलैजियल जोड़ के समीपस्थ हो 30,000
24. मेटेटारसोफॉलैजियल जोड़ के बीच से एक पैर की सभी अंगुलियों की हानि के लिए 20,000

25. एक आंख की हानि के लिए जिसमें बिना किसी अन्य गड़बड़ी के दूसरी सामान्य हो 40,000
26. बिना किसी अन्य क्षति या नेत्र गोलक की विकृति के, एक आंख की हानि के लिए जिसमें दूसरी सामान्य हो 30,000

व्यावृत्ति : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मूल नियमों के उपबन्ध, जैसे कि वे इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थे, ऐसी किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व घटित हुई थी, किसी यात्री की मृत्यु के कारण हुई हानि के लिए और ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई उसकी वैयक्तिक क्षति के लिए और ऐसे पशुओं या माल की, जिसका वह स्वामी है और जो उसके सवारी डिब्बे या उस रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे थे, हानि, नाश या अवशेषण के लिए, संशय प्रतिकर की राशि अवधारित करने के लिए लागू होंगे।

[सं० 82/टीजी-II/1026/22/आई आर ए]

ए० जोहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1984

S.O. No. 171(E).—In exercise of the powers conferred by section 82J of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) (Amendment) Rules, 1984.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 4th day of March, 1983.
2. (1) Para 2 of sub-rule (2) of rule 5, shall be deleted.
- (2) In sub-rule (2) of rule 6, for the words "rupees fifty thousand" the words "rupees one lakh" shall be substituted.
- (3) In sub-rule (3) of rule 6, after the word "consideration" for the words "all the" the words "medical evidence, besides other" shall be substituted.
- (4) In the second proviso to sub-rule (3) of rule 6, for the words "rupees ten thousand" the words "rupees twenty thousand" shall be substituted.
- (5) In rule 7, for the words "rupees fifty thousand" the words "rupees one lakh" shall be substituted.

(6) For the Schedule the following Schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE

(See Rule 6)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AID INJURIES

PART I Amount of Compensation Rs.

For death 1,00,000

PART II

(i) For loss of both hands or amputation at higher sites. 1,00,000

(ii) For loss of hand and a foot. 1,00,000

(iii) For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot 1,00,000

(iv) For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential 1,00,000

(v) For very severe facial disfigurement 1,00,000

(vi) For absolute deafness 1,00,000

PART III

1. For amputation through shoulder joint 90,000

2. For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion 80,000

3. For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4½" below tip of olecranon 70,000

4. For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4½" below tip of olecranon 60,000

5. For loss of thumb 30,000

6. For loss of thumb and its metacarpal bone 40,000

7. For loss of four fingers of one hand 50,000

8. For loss of three fingers of one hand 30,000

9. For loss of two fingers of one hand 20,000

10. For loss of terminal phalanx of thumb 20,000

11. For amputation of both feet resulting in end bearing stumps 90,000

12. For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint 80,00

13. For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint 40,000

14. For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint 30,000

15. For loss of all toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint 20,000

16. For amputation at hip 90,000

17. For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from hip of great trochanter 80,000

18. For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh 70,000

19. For amputation below middle thigh to 3½" below knee 60,000

20. For amputation below knee with stump exceeding 3½" but not exceeding 5" 50,000

21. For amputation below knee with stump exceeding 5" 40,000

22. For amputation of one foot resulting in end-bearing 30,000

23. For amputation through one foot proximal to the metatarsophalangeal joint 30,000

24. For loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal joint 20,000

25. For loss of one eye, without complications, the other being normal 40,000

26. For loss of vision of one eye, without complications or disfigurement of eye ball, the other being normal 30,000

Saving.—Notwithstanding anything contained in these rules, the provisions of the principal rules as they stood before the commencement of these rules, shall apply for determining the amount of compensation payable for loss occasioned by the death of a passenger dying as a result of an accident which occurred before such commencement and for personal injury and loss, destruction or

deterioration of animals or goods owned by the passenger and accompanying the passenger in his compartment or on the train, sustained as a result of such accident.

[No. 82|TGII|1026|22|IRA]

A. JOHRI, Secy. Railway Board.